



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 17, 1982/चैत्र 27, 1904
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 17, 1982/CHAITRA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1982

आ० अ० 46(अ).—निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, (1951 का 43) की धारा 149 के अधीन तारीख 6 मई, 1981 का जारी की गई अपनी अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के 2-गढ़वाल मण्डलीय निर्वाचन-क्षेत्र में लोक सभा में हुई रिक्ति का भरने के लिए एक सदस्य निर्वाचित करने की प्रेरणा की गई थी और उक्त अधिनियम की धारा 30 के अधीन उक्त निर्वाचन के लिए मतदान की तारीख के रूप में तारीख 14 जून, 1981 नियत की गई थी,

और, निर्वाचन आयोग ने तारीख 20 जून 1981 के अपने आदेश द्वारा उक्त निर्वाचन-क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर हुए उपराक्त तारीख अर्थात् 14 जून, 1981 का हुए मतदान को उसमें अभिलिखित कारणों के लिए शून्य घोषित कर दिया था

और, निर्वाचन आयोग ने तारीख 20 जून, 1981 के अपने उक्त आदेश द्वारा यह निर्देश दिया था कि सभी सुसंगत

तथ्या और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्वाचन-क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों में उसके द्वारा नियत की गई तारीख को नया मतदान कराया जाएगा,

और निर्वाचन आयोग ने तारीख 29 सितम्बर 1981 की अपनी अधिसूचना संख्या 100/उ० प्र०-ला० म०/4/80 द्वारा उक्त निर्वाचन-क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर नया मतदान कराने के लिए तारीख 22 नवम्बर, 1981, नियत की थी

और, निर्वाचन आयोग ने तारीख 14 नवम्बर, 1981 के आदेश से बताए गए कारणों से तारीख 21 नवम्बर, 1981 की अपनी अधिसूचना सं० 100/उ० प्र०-ला० म०/4/80 (2) द्वारा तारीख 22 नवम्बर, 1981 को नया मतदान कराने के लिए नियत तारीख को रद्द कर दिया था और साथ ही यह निर्देश दिया था कि उक्त निर्वाचन-क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर नया मतदान निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक समय में निर्वाचित की जाने वाली तारीख को कराया जाएगा, और उस प्रयोजन के लिए उक्त निर्वाचन को समाप्त करने की तारीख 30 जून, 1982 तक बढ़ा दी थी,

और निर्वाचन आयोग ने सुसंगत तथ्या और परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया है कि उक्त निर्वाचन-

क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों पर नया मतदान तारीख 19 मई, 1982 को कराया जाएगा;

अतः, अब, संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30, 56, 153 तथा साधारण खंड अधिनियम, 1897/ (1897 का 10) की धारा 21 तथा उस बारे में उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अपनी तारीख 21 नवम्बर, 1981 की अधिसूचना सं० 100/उ० प्र०-लो० सं०/4/80 के आंशिक उपांतरण, निर्वाचन आयोग—

(क) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो उक्त निर्वाचन-क्षेत्र से सभी मतदान केन्द्रों पर 7.30 बजे पूर्वाह्न से 4.30 बजे अपराह्न के बीच नया मतदान कराया जाएगा।

नियत करता है। 19 मई, 1982 (बुधवार)

[सं० 100/उ० प्र० लो० सं०/4/80]

आदेश से,
के० गणेशम, सचिव
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 1982

O.N. 46(E).—Whereas the Election Commission by its notification dated the 6th May, 1981 issued under section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), called upon 2-Garhwal Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh to elect a member to fill a vacancy in the House of the People and fixed the 14th June,

1981 as the date of poll for the said election under section 30 of the said Act ;

And whereas the Commission by its order dated the 20th June, 1981 declared the poll taken on the aforesaid date i.e. the 14th June, 1981, at all the polling stations in the said constituency to be void for the reasons recorded therein ;

And whereas the Commission by its aforesaid order dated the 20th June, 1981 further directed that a fresh poll shall be taken at all the polling stations in the said constituency on a date to be fixed by it after taking into account all the relevant facts and circumstances ;

And whereas the Election Commission, by its notification No. 100/UP-HP/4/80 dated the 29th September, 1981, had fixed the 22nd November, 1981 as the date for holding the fresh poll at all the polling stations in the said constituency ;

And whereas, for the reasons stated in its order dated the 14th November, 1981, the Election Commission had, by its notification No. 100/UP-HP/4/80(2) dated the 21st November, 1981, cancelled the aforesaid date of re-poll fixed on the 22nd November, 1981 and further directed that the fresh poll shall be taken at all the polling stations in the constituency on a date to be fixed by it in due course and for that purpose extended the date of completion of the said election upto the 30th June, 1982 ;

And whereas the Commission, after taking into account the relevant facts and circumstances, has decided to hold the repoll at all the polling stations in the said constituency on Wednesday, the 19th May, 1982 ;

Now, therefore, in exercise of its powers under article 324 of the Constitution, sections 30, 56 and 153 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in that behalf and in partial modification of its notification No. 100/UP-HP/4/80, dated the 21st November, 1981, the Election Commission hereby appoints—

(a) the 19th May, 1982 (Wednesday) as the date on which fresh poll shall be taken at all the polling stations in the aforesaid constituency between the hours 7.30 a.m. and 4.30 p.m.

[No. 100/UP-HP/4/80]

By Order,

K. GANESAN, Secy.
Election Commission of India